

**Department of Information Technology & Communication**  
**List of Total Budget Announcements for F.Y. 2020-2021**

Sno	Department	Annoucement Para / Description
1	DoIT&C.	43.0.0( 2019-2020) ग्राम पंचायत स्तर पर फ्री इंटरनेट हेतु अभी तक लगभग 8 हजार वाईफाई hotspot उपलब्ध करवाये जा चुके हैं जिन्हें आगामी वर्ष में 20 हजार करना प्रस्तावित है।
2	DoIT&C.	43.1.0( 2019-2020) अब तक 3 हजार ग्राम पंचायतों को वाईफाई की जा चुकी है तथा शेष रही ग्राम पंचायतों को भी वाईफाई किया जायेगा।
3	DoIT&C.	44.0.0( 2019-2020 ) युवाओं के लिए, जो कि Start-ups के रूप में कोई पहल (initiative) करना चाहते हैं तो उन्हें plug and play facility उपलब्ध करवाने वाले incubators में सीटों की संख्या एक हजार से बढ़ाकर दो हजार की जायेगी।
4	DoIT&C.	142.0.0( 2019-2020) किसानों के लिए एक online integrated platform तैयार करवाया जायेगा, जिसमें कृषि, विपणन, पशुपालन, डेयरी, horticulture आदि की गतिविधियों को एक जगह शामिल किया जायेगा।
5	DoIT&C.	143.0.0( 2019-2020) इस वर्ष 1 हजार से अधिक आबादी के समस्त राजस्व गाँवों में 6 हजार नये ई-मित्र केन्द्र खोले जायेंगे।
6	DoIT&C.	143.01.0( 2019-2020) सभी 33 जिला, 331 तहसील एवं 180 उप तहसील मुख्यालयों पर ई-मित्र प्लस मशीनों की स्थापना कार्यालय परिसर में की जायेगी। जिससे भविष्य में सरकार की विभिन्न सेवायें सुलभता से उपलब्ध हो सकेंगी।
7	DoIT&C.	144.0.0( 2019-2020) राज्य के गाँवों में घरों तक फाइबर टू होम के माध्यम से उच्च गति की इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवायेंगे, जिससे विश्वस्तरीय टेलीफोन, वीडियो एवं डाटा सेवाएँ मिलेंगी।
8	DoIT&C.	145.0.0( 2019-2020) आमजन की सुरक्षा हेतु समस्त जिला मुख्यालयों पर अभय command & control centres स्थापित किये जा रहे हैं। इनमें कैमरों की संख्या 3 हजार 500 से बढ़ाकर 10 हजार की जायेगी। आपदा प्रबन्धन को प्रभावी बनाने के लिए अति आवश्यक सेवाओं जैसे फायर बिग्रेड एवं एम्बुलेंस को भी इन सेंटर से जोड़ा जायेगा।
9	DoIT&C.	165.01.0( 2020-2021) सरकार अन्य विभागों एवं उनकी योजनाओं/ सेवाओं को जनसूचना पोर्टल पर लायेगी।
10	DoIT&C.	166.01.0( 2020-2021) स्टार्टअप्स के विकास के लिए 75 करोड़ रुपये के 'राजीव@75 फण्ड' की स्थापना की जायेगी।
11	DoIT&C.	166.02.0( 2020-2021) राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं (जैसे आईआईटी-जोधपुर, बिट्स-पिलानी, एमएनआईटी- जयपुर, एम्स-जोधपुर आदि) सहित अन्य संस्थानों में स्थापित incubators को i-Start राजस्थान से जोड़ा जायेगा।
12	DoIT&C.	168.0.0( 2020-2021) सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधीजी की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों को 'राजीव गांधी ग्रामीण आईटी हब - राजगृह' (RAJGRIH) के रूप में विकसित कर ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस सेवाओं की प्रदायगी को और मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया गया है।
13	DoIT&C.	169.0.0 ( 2020-2021) Artificial Intelligence के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास हेतु प्रदेश में एक Artificial Intelligence Lab की स्थापना की जायेगी, जिसके माध्यम से नवयुवकों को इस तकनीक में उच्च श्रेणी का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
14	DoIT&C.	203.04.0( 2020-2021) आगामी वर्ष में स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप नीति लागू की जायेगी।
15	DoIT&C.	265.0.0 ( 2020-2021) भरतपुर में स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जायेगी।
16	DoIT&C.	266.0.0( 2020-2021) जोधपुर में सिटी इनोवेशन क्लस्टर की स्थापना में राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग रहेगा।